



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 649) पटना, बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर 2009

पत्र संख्या- 1लो०ले०स०-16/09-748/वि०स० ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

20 जुलाई 2009

प्रेषक,

श्री मु० जैनूल,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-20 जुलाई, 2009 ।

विषय:— भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों वर्ष 2007-08 (सिविल, राजस्व प्राप्तियां, वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे) को सभा मेज पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सिविल, राजस्व प्राप्तियां, वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2009 को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

मु० जैनूल,
उप-सचिव।

बिहार-विधान सभा सचिवालय

20 जुलाई 2009

मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि “भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को अन्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) बिहार सरकार, जिसे विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनरीक्षण किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि “बिहार सरकार का वित्त लेखे 2007-2008, विनियोग लेखे 2007-2008 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन 2007-2008 (सिविल), बिहार सरकार जिन्हें बिहार विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक-लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय के आदेश से,

मु० जैनूल,

उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 649-571+20-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>